



सांता क्लैरा काउंटी के मतदाताओं के लिए हिन्दी-भाषा सहायता

घर से मतदान करना

आप अनूदित सामग्रियों को डाक द्वारा मतदान दिवस से पहले मँगवा सकेंगे। अनूदित सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए <https://voterstatus.sos.ca.gov> पर जाएँ अथवा चुनाव कार्यालय को ((866-430-8683)) पर फोन करके अपने भाषा की प्राथमिकता को अपडेट करना सुनिश्चित करें।

यदि आप हिन्दी में मतदान करना चाहते हैं तो मेल से एक अनूदित मतपत्र को प्राप्त करने की माँग कर सकते हैं। यदि आप मतपत्र अथवा सामग्रियों को अपने पसंदीदा भाषा में प्राप्त नहीं करते हैं तो चुनाव कार्यालय को फोन करें।

व्यक्तिगत रूप से मतदान करना

यदि आप मतदान केन्द्र पर व्यक्तिगत रूप से मतदान करना चाहते हैं तो आप मौखिक सहायता का उपयोग कर सकते हैं। जब तक वे लोग आपके नियोक्ता या संघ का प्रतिनिधित्व नहीं करते तब तक आपको आपके मतदान में सहायता के लिए दो लोगों को लाने की अनुमति दी गई है। परिवार के एक सदस्य अथवा मित्र को साथ लाएँ!

यदि आपके मतदाता केन्द्र पर द्विभाषी मतदान कर्मी है तो वे जो भाषा बोलते हैं उसका एक बिल्ला, रिबन या स्टिकर पहने होने चाहिए।

यदि आप मतदान केन्द्र पर व्यक्तिगत रूप से मतदान करते हैं तो अनूदित हिन्दी मतदान सामग्रियों, जिसमें वे मतपत्र शामिल हैं जिसपर आप मतदान कर सकते हैं, का उपयोग कर सकते हैं। ये प्रत्येक मतदान केंद्र पर उपलब्ध होने चाहिए। जब आप अंदर जा रहे हो तब बस मतदान केंद्र के कर्मी को इसके बारे में बताएँ कि आपको हिन्दी मतपत्र की आवश्यकता है। वे आपको इसे उपलब्ध करा देंगे।

मतदान के दौरान यदि आप किसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो काउंटी चुनाव कार्यालय से 866-430-8683 पर सम्पर्क करें अथवा सहायता के लिए 888-API-VOTE (888-274-8683) पर सम्पर्क करें।